

पाठ्यक्रम:HIN-501

पाठ्यक्रम का शीर्षक: मध्यकालीन काव्य : व्यावहारिक समीक्षा

श्रेयांक: 04 (60)

शैक्षणिक वर्ष से लागू: 2022-23

| पाठ्यक्रम के लिए पूर्वापेक्षित | मध्यकालीन कवियों की संक्षिप्त जानकारी अपेक्षित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | घंटे                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| उद्देश्य                       | <ul style="list-style-type: none"><li>वर्तमान संदर्भ में भक्तिकालीन काव्य की महत्ता से परिचित कराना।</li><li>भक्तिकाल के कवियों से परिचित कराना।</li><li>भक्तिकालीन काव्य की भावात्मक एवं वैचारिक चेतना से अवगत कराना।</li><li>भक्तिकाल की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना।</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| पाठ्य विषय                     | <p>मलिक मुहम्मद जायसी, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीराँबाई, बिहारी एवं घनानंद के काव्य की व्यावहारिक समीक्षा के मानदंड।</p> <p>चयनित कवि एवं कवयित्री : कविताएँ</p> <p>1. मलिक मुहम्मद जायसी</p> <p>निर्धारित पाठ्यपुस्तक : जायसी ग्रंथावली, संपादक - आ० रामचंद्र शुक्ल: नखशिख - खंड।</p> <p>2. कबीरदास</p> <p>निर्धारित पाठ्यपुस्तक : कबीर - सं० आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी</p> <p>पदसंख्या : 1, 2, 5, 12, 20, 39, 41, 77, 92, 109, 118, 130, 134, 137, 141, 162, 224, 247</p> <p>3. गोस्वामी तुलसीदास</p> <p>निर्धारित पाठ्यपुस्तक : रामचरितमानस - गोस्वामी तुलसीदास</p> <p>रामचरितमानस: उत्तरकांड (पद संख्या 01 से 30 तक)</p> <p>4. मीराँबाई - निर्धारित पाठ्यपुस्तक : मीराँबाई की पदावली – सं० परशुराम चतुर्वेदी : पद -</p> <ol style="list-style-type: none"><li>मैं तो साँवरे के रंग राची</li><li>सखी मेरी नींद नसानी हो</li><li>तनक हरि चितवौ जी मोरी ओर</li></ol> | <p>12</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <p>iv. हरि मेरे जीवन प्राण आधार<br/>v. बादल देख डरी हो स्याम<br/>vi. सुण लीजो बिनती मोरी<br/>vii. ज्यासंग मेरा न्याहा लगाया<br/>viii. हरि तुम कायकू प्रीत लगाई<br/>ix. तुम बिन मेरो कौन खबर ले<br/>x. हरि गुन गावत नाचूंगी</p> <p>5.बिहारी - निर्धारित पाठ्यपुस्तक : बिहारी रत्नाकर :श्री जगन्नाथदास'रत्नाकर'- दोहे संख्या : 4, 7, 10, 91, 93, 95, 96, 155,157, 158,163, 300, 322, 364, 499</p> <p>6. घनानंद –निर्धारित पाठ्यपुस्तक- घनानंद कवित्त (सं०) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : कवित्त संख्या – 2, 12, 15, 24, 40, 78, 87, 112, 140, 278</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>10</p> <p>08</p> |
| अध्यापन विधि | व्याख्यान, वाद-विवाद, संवाद, संगोष्ठी प्रस्तुतीकरण, वृत्तचित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| संदर्भ ग्रंथ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) अग्रवाल, पुरुषोत्तम. कबीर:साखी और सबद.नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2016.</li> <li>2) अग्रवाल, वासुदेव शरण. पद्मावत.लोकभारती प्रकाशन , इलाहाबाद, 2000.</li> <li>3) गुप्त, माताप्रसाद. तुलसी ग्रंथावली -भाग 1, 2.हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग,1950.</li> <li>4) गुप्त, माताप्रसाद. तुलसीदास.हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद, 1957.</li> <li>5) तिवारी, गोपीनाथ (सं०)-तुलसीदास विभिन्न दृष्टियों का परिप्रेक्ष्य.विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1973.</li> <li>6) तिवारी, डॉ० रामचंद्र. कबीर – मीमांसा. लोकभारती प्रकाशन , इलाहाबाद, 1995.</li> <li>7) द्विवेदी, आ० हज़ारीप्रसाद. कबीर.राजकमल प्रकाशन , नई दिल्ली, 1995.</li> <li>8) शुक्ल, आ० रामचंद्र. त्रिवेणी.नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1983.</li> <li>9) शुक्ल, ललित. पद्मावत संदर्भ कोश. स्टैंडर्ड पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली, 1999.</li> <li>10) साही, विजयदेवनारायण. जायसी.हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, 1993.</li> <li>11) सिंह, डॉ० वासुदेव. कबीर, साहित्य, साधना और पंथ.संजय बुक सेंटर, वाराणसी, 1993.</li> <li>12) सिंह, डॉ० वासुदेव. मध्यकालीन काव्यसाधना. संजय बुक सेंटर, वाराणसी, 1981.</li> </ol> |                     |
| अधिगम परिणाम | <ul style="list-style-type: none"> <li>• मध्यकालीन काव्य की महत्ता से परिचित होंगे।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• भक्तिकाल के कवियों से परिचित होंगे।</li><li>• भक्तिकालीन काव्य की भावात्मक एवं वैचारिक चेतना से अवगत होंगे।</li><li>• भक्तिकाल की प्रासंगिकता को समझ पाएँगे।</li></ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|